

(ग) कोयले के कोयले की विपणित सलाई सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है ?

रेल संसाधन ने इन्फ-मंती (बी सुहम्बर हाकी कुरेती) .

(क) कोयले की कमी के कारण 1-1-74 से 23-2-74 तक की अवधि के दौरान घातक 22 जोड़ी सवारी गाड़ियां रोकना निश्चित रही।

(ख) नवम्बर 1973 से घाटे रेलों पर कर्मचारियों का व्यापक आन्दोलन चलता रहा जिससे लोको अचरभण कर्मचारियों की हड़ताल भी शामिल है। इसके बाद दिसम्बर, 1973 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल और फरवरी में सवारी और माल-डिब्बा कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ, जिसका कोयले के लदान पर गभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अभी हाल ही में गाड़ों का आन्दोलन हुआ था जिससे बंगाल और बिहार तथा मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों में जासतौर से कोयले के लदान पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(ग) यदि कार्य की स्थिति सामान्य हो जाए तो नियमित सलाई रखना और कोयले का स्टॉक बनाना संभव हो सकेगा।

Using Rustam Crude for Cochin Refinery

3711. SHRI C. K. CHANDRAPPA N .
SHRI C. JANARDHANAN .

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government have decided to use Rustam Crude for Cochin Refinery ; and

(b) if so, the reasons and other features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) . (a) and (b) In view of the difficult crude supply situation, it has been decided to utilise India's share of the Rustam crude for processing in this country. India's share of Rustam crude in 1974 is about 0.52 million tonnes. Rustam crude is being processed in Cochin Refinery in addition to other crudes with a view

to ensuring fuller utilisation of the capacity of this Refinery.

Increasing Production of Benzene Toluene at Koyali Refinery of I. O. C.

3712. SHRI ARVIND M. PATEL :
SHRI D. P. JADEJA :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether priority is being given to maximise the production of benzene toluene at Koyali Refinery of Indian Oil Corporation ;

(b) if so, what are the broad features in this regard ; and

(c) whether its production will counter-vail the losses of the Refinery ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) Koyali Refinery can now produce 45,000 tonnes per year of Benzene as against the designed capacity of 33,000 tonnes and 17,000 tonnes per year of toluene as against the designed capacity of 14,000 tonnes.

(c) The refinery is already making profits. The increase in Benzene production is expected to further improve the profitability of the refinery.

Targets of Refining Capacity during Fourth and Fifth Plans

3713. SHRI S. N. SINGH DFO : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the targets fixed by Government for the achievement of refining capacity during Fifth Five Year Plan ;

(b) the extent to which Government have achieved its goal during the Fourth Five Year Plan ; and